

स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र।

01. आवेदक का नाम- डा. वन्दना वर्मा
02. पिता/पति का नाम- श्री राम दयाल वर्मा
03. पदनाम- आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी
04. नियुक्ति का प्रकार- नियमित
05. वर्तमान तैनाती का स्थान- रा. आ. चि. कौटालगांव (रि.ग.)
06. वर्तमान तैनाती की तिथि- 21/10/2013
07. पूर्व में तैनात कार्यालयों का विवरण-

क्र० सं०	तैनाती का स्थान	तैनाती की अवधि	दुर्गम/अति दुर्गम/सुगम	टिप्पणी
1.	रा. आ. चि.			
2.	कौटालगांव	21/10/2013 से	31/05/20	दुर्गम
3.	(रि.ग.)		25	
4.				
5.		मुझे स्थानान्तरित न किया जाय		
6.		रा. आ. चि. कौटालगांव (रि.ग.)		
7.		में		
8.		अभाव में तैनात रहना चाहती		
9.		है।		
10.				

08. श्रेणी जिसमें स्थानान्तरण चाहते हैं- (कोई भी एक विकल्प चुनें)

- ☐ सुगम से दुर्गम
☐ अनुरोध
☒ दुर्गम से सुगम
☐ स्थानान्तरण से छूट
☒ स्थानान्तरण नहीं चाहते हैं (केवल दुर्गम में तैनात कार्मिकों हेतु)

09. स्थानान्तरण से छूट चाहने वाले कार्मिक (साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य) -

- ☐ वरिष्ठ कार्मिक
☒ दुर्गम में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण
☐ गंभीर रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिक
☐ पुत्र/पुत्री की विकलांगता
☐ अर्धसैनिक/सैनिक में तैनात कार्मिकों के पति/पत्नी

10. अनुरोध उप श्रेणी (साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य) -

- | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|
| ○ गंभीर रोग
ग्रस्त/विकलांग | ○ मानसिक
रूप से
विक्षिप्त
बच्चों के
माता-पिता | ○ पुत्र/पुत्री
की
विकलांगता | ○ उत्तराखण्ड
सरकार में
कार्यरत
पति-पत्नी | ○ विधुर/विधवा/
○ तलाकशुदा/वरिष्ठ
कार्मिक |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|
- दुर्गम से दुर्गम ○ सुगम से
दुर्गम

11. स्थानान्तरण के 10 विकल्प-

क्र०सं०	चिकित्सालय का नाम	श्रेणी (सुगम/दुर्गम)
1	रा० आ० चि० ढालवाला (रि० ग०)	सुगम
2	रा० आ० चि० जगजीतपुर (हरिद्वार)	सुगम
3	रा० आ० चि० धर्मपुर (देहरादून)	सुगम
4	रा० आ० चि० गजराबाद (देहरादून)	सुगम
5	रा० आ० चि० नरेन्द्रनगर (रि० ग०)	सुगम
6	रा० आ० चि० अइखडी, बार्ड 1 (हरिद्वार)	सुगम
7	रा० आ० चि० अहमिका (देहरादून)	सुगम
8	रा० आ० चि० बहादुरबाद (हरिद्वार)	सुगम
9	रा० आ० चि० मैडीयाबा (हरिद्वार)	सुगम
10	रा० आ० चि० कोटालगांव (रि० ग०)	दुर्गम

12. संलग्न साक्ष्यों की पृष्ठ संख्या-

(साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य है)

उपरोक्त '09' विकल्प में स्थानान्तरण न हो

सकने की दशा में कुल रा० आ० चि०

कोटालगांव (रि० ग०) में व्यवहार में है नर रहने

(नोट- ऐसे वरिष्ठ चिकित्साधिकारी जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पद का प्रभार लिये जाने के इच्छुक नहीं हैं, अनिवार्य रूप से वेबसाईट में उपलब्ध घोषणापत्र भी हस्ताक्षरित कर जमा करेंगे।)

हस्ताक्षर-

नाम-

पदनाम-

Vandana Verma

वन्दना वर्मा

आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय
कोटालगांव (रि० ग०)